



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसिद्धि के द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]
No. 25]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 18, 2001/श्रावण 27, 1923
NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 18, 2001/SRAVANA 27, 1923

इस भाग में बिना पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) PART II—Section 3—Sub-section (III)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2001

आ.अ. 99.— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से एतद्वारा श्री प्रकाश चन्द्र, आई. ए. एम. के स्थान पर श्री जे. पी. सिंह, आई. ए. एम., (ए.जी.एम.यू.: 1977) जेवरमेन एवं प्रबंध निदेशक, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अग्रणी आदेशों तक के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है ।

2. श्री जे. पी. सिंह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदधारियों को तत्काल सौंप देने या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे ।

3. श्री जे. पी. सिंह, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्य करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा ।

[सं. 154/डी. एल./2001-का. प्रशा.]

आदेश से,
ललित मोहन, अवर सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2001

New Delhi, the 6th August, 2001

O.N. 99.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with Government of National Capital Territory of Delhi hereby nominates Shri J. P. Singh, IAS (AGMU : 1977), Chairman-cum-Managing Director, Delhi State Industrial Development Corporation as the Chief Electoral Officer for the National Capital Territory of Delhi with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri Prakash Chander, IAS.

2. Shri J. P. Singh shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of National Capital Territory of Delhi, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri J. P. Singh, while functioning as the Chief Electoral Officer, National Capital Territory of Delhi shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of National Capital Territory of Delhi except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department to the Secretariat of National Capital Territory of Delhi.

[No. 154|DL|2001-P. Admn.]

By Order,

LALIT MOHAN, Under Secy.

आ.अ. 100.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग गोवा सरकार के परामर्श से एतद्वारा श्री अशोक कुमार, आई. ए. एस. के स्थान पर श्री अरविन्द रे, आई. ए. एस., (ए.जी.एस.यू. : 84) को उनके कार्य भार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

[सं. 154/गोवा/2001-का. प्रशासन]

आदेश में,

ललित मोहन, अवर सचिव

New Delhi, the 7th August, 2001

O.N. 100.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the Election Commission of India in consultation with Government of Goa hereby nominates Shri Arvind Ray, I.A.S. (AGMU : 84), as the Chief Electoral Officer for the State of Goa with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri Ashok Kumar I.A.S.

[No. 154|GOA|2001-P. Admn.]

By Order,

LALIT MOHAN, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2001

आ. अ. 101.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि पश्चिम बंगाल विधान सभा के उप-निर्वाचन 1998 के लिए जो स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वर्तित बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं :

और उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करते के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है।

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रम सं.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का नाम और पता	निर्णय का कारण
1	2	3	4
1.	178-चण्डीतला	श्री बिकीरण बनर्जी गांव बारीजाहट्टी डाकघर और घाना चण्डीतला, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया
	--वही--	श्री श्री स्वप्न दास 13-जी. बी. लेन, शेओरापुल्ली, हुगली, पश्चिम बंगाल	--वही--

[सं. 76/प.ब.-वि.स./ 001]

आदेश से,
घनश्याम खोहर, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th August, 2001

O. N. 101.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the bye-election to the West Bengal Legislative Assembly, 1998 held from the Constituency specified in column (2) against his name has failed to lodge any account of his election expenses or has failed to lodge his account of election expenses in the manner required by law as shown in column (4) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder; and

Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this Order.

TABLE

S. No.	Number and Name of Assembly Constituency	Names of contesting candidates	Reason for disqualification
1	2	3	4
1.	178-Chanditala	Sh. Bikiran Banerjee Village, Barijahatty P.O. & PS. Chanditala, District : Hooghly, West Bengal.	Account not lodged at all.
2.	-do-	Sh. Swapan Das 13. G. B. Lane Sheoraphully, Hooghly, West Bengal	-do-

[No. 76/WB—LA/2001]

By Order,
GHANSHYAM KHOHAR, Secy.

आदेश

ORDER

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2001

New Delhi, the 7th August, 2001

आ.प्र. 102.—यतः, उड़ीसा विधान सभा, 2000 के लिए 142-वम्पुआ विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी श्री हरिहर सोरेन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः श्री हरिहर सोरेन ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है ;

और यतः निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त अभ्यर्थी के पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग इसके द्वारा श्री हरिहर सोरेन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं. 76/उड़ीसा-वि.स./2001]

आदेश से,

गनश्याम खोहर, सचिव

O.N. 102.—Whereas, Shri Harihar Soren a contesting candidate at the General election to the Orissa Legislative Assembly, 2000, held from 142-Champua Assembly Constituency has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas, Shri Harihar Soren has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission.

And, whereas, the Election Commission is satisfied that the said candidate has no good reason or justification for the said failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares Shri Harihar Soren to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this Order.

[No. 76/OR-LA|2001]

By Order,

GHANSHYAM KHOHAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2001

आ.प्र. 103.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन एवं उप-निर्वाचन, 2000 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हूँ, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

संश्लेषण

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रम सं.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम नाम और पता	निरहता का कारण
1		3	4	5
1.	बिहार राज्य से विधान सभा के लिए उप-चुनाव, 2000	283—निरसा	श्री मो. फारुख ग्राम-चपरा, पो.-चिरकुण्डा, जिला धनबाद, झारखण्ड।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल।
	बिहार राज्य से विधान सभा का साधारण चुनाव, 2000	285—झरिया	श्री मुन्नी लाल, भागानं. 16, पो. भागा जिला धनबाद, झारखण्ड।	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल।

[सं. 76/बिहार-वि. स./2000]

आदेश से,

गनश्याम खोहर, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th August, 2001

O. N. 103.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election and Bye Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2000 as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table ;

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even due notice or the election Commission after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure ;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :

TABLE

Sl. No.	Particulars of election	Number & name of the Constituency	Name & address of the Candidate	Reason of disqualification
1	2	3	4	5
1.	Bye Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2000.	283—Nirsa	Sh. Md. Farukh Vill. Chapra P.O. Chirkunda District Dhanbad Jharkhand.	Failure to lodge an account of election expenses.
2.	General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2000.	285—Jharria	Sh. Munni Lal Bhaga No. 16 P.O. Bhaga District Dhanbad Jharkhand.	Failure to lodge account of election in the manner required by law.

[No. 76/BR-LA/2000]

By Order,

GHANSHYAM KHOHAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2001

आ. अ. 104.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि लोक सभा, 1999 के साधारण निर्वाचन के लिए जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (3) में उसके माधने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विधान बनाए गए नियमों द्वारा अशोधित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा-दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है :—

सारणी

क्र. सं.	संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की क्र. सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरहता का कारण
1		3	4
1.	मद्रास-केन्द्रीय	1. श्री अम्ममुगम, जे, 36 अम्मैयुयापन स्ट्रीट, रोयापेट्टाह, चेन्नई-14	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया।
		2. श्री डॉमिनिक सावित्रों, एम 6ए/1, हरिहर अपार्टमेंट, वेदाघलम नगर चेन्नई-24	—वही—
2.	दक्षिण-मद्रास	1. श्री इलांगो एस, 3/12, सुब्बुपिल्लई, तोडुम न्यूडोर नं. 3/11, टी. नगर, चेन्नई-17	—वही—
		2. श्री राजा. एम. 19, अन्ना, 2-स्ट्रीट सुब्बु पिल्लई तोडुम, टी. नगर, चेन्नई-17	—वही—
3.	श्रीपेरुम्बुडुर (अ. जा.)	1. श्री पोन्नेया सी. 3, मेकेंड स्ट्रीट, मनावाला नगर, तिरुवल्लूर	—वही—
		2. श्री सेलवम एन, 3/36 नगरनिम पिल्लई स्ट्रीट, कालादीपेट, सिरुक्कालातुर पंचायत कुंदरातुर (वाया) चेन्नई-600069	—वही—

1	2	3	4
4	26-कल्लर	1. श्री चिन्तामामी. एम, 62-ए, न्यू लाइन, कावेरी ग्राम्मल तोप्पु कल्लर-639001	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया।
		2. श्री श्रीनिवासन. सी, 62-ए, न्यू लाइन, कावेरी ग्राम्मल तोप्पु, एल. एन. एस. वेस्ट कल्लर	--वही--
		3. श्री मेन्निल राजा, एम. 32-बी., पंडारीनाथन, कोडल स्ट्रीट, कल्लर	--वही--
		4. श्री बालाकृष्णन एम. 33, पंडारीनाथन, कोडल स्ट्रीट, कल्लर-639001	--वही--

[सं. 76/त. ना-लो. स./99]

आदेश से,

बाबू राम, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th August, 2001

O.N. 104.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the General Election to the House of the People, 1999 held from the Constituency specified in the column (2) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failures even after due notice to each of them and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of the Parliament or Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this Order.

TABLE

Sl. No. & Name of Parliament- No. ary Constituency	Name & Address of the contesting candi- date	Reason for disqualification
1	2	3
1. 2—Madras Central	1. Sh. Arumugam, J., 36, Ammaiyyapan Street, Royappettah, Chennai-14.	Accounts not lodged at all
	2. Sh. Dominic Savio, M., 6A/1 Harihar Apartment, Vedachalam Nagar, Chennai-24.	-do-

1.	2.	3.	4.
2. 3—South-Madras.	1. Sh. Elango, S. 3/12, Subbu Pillai, Thottam New Door No. 3/11, T. Nagar, Chennai-17.		Accounts not lodged at all.
	2. Sh. Raja. M. 19, Anna 2nd Street, Subbu Pillai, Thottam, T. Nagar, Chennai-17.		-do-
3. 4—Sriperumbudur (SC)	1. Sh. Ponniah. C, 3, Second Street, Manavala Nagar, Tiruvallur.		-do-
	2. Sh. Selvam. N, 3/36, Nagarathinam Pillai Street, Kaladipet, Sirukalathur Panchayat, Kundrathur (Via) Chennai-600069.		-do-
4. 26—Karur	1. Sh. Chinnasamy. M 62-A New line Cauvery Ammal Thoppu, Karur-639001.		-do-
	2. Sh. Srinivasan, C 62-A New line Cauvery Ammal Thoppu, L.N.S. West, Karur.		-do-
	3. Sh. Senthil Raja. S 32-B, Pandarinathan Koil Street, Karur.		-do-
	4. Sh. Balakrishnan. S. 33, Pandarinathan Koil Street, Karur-639001.		-do-

[No. 76/TN-HP/99]

By Order

BABU RAM, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2001

आ.प्र. 105.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मध्य प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 1998 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र में हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समझ के अन्तर्गत दाखिल करने में असफल रहा है ;

और उक्त अभ्यर्थियों ने सम्बन्ध सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है :—

सारणी

क्र.सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 1998	68-मनगवां	श्री सम्पति धवैया (मनगवां) जिला रीवा, मध्य प्रदेश ।	कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा ।
2.	—वही—	71-देवतालवा (अ. ज. जा.)	श्री जयकरण नीरत, ग्राम ब पोस्ट तमरा देव, तहसील गढ़, जिला रीवा, मध्य प्रदेश ।	—वही—
3.	—वही—	72-मऊगंज	श्री राम प्रताप विश्वकर्मा ग्राम ब पोस्ट ताऊतकला जिला रीवा, मध्य प्रदेश ।	—वही—
4.	—वही—	—वही—	श्री केजरी प्रसाद पटेल, ग्राम बभ्रा महतमान, पोस्ट पांती, जिला रीवा, मध्य प्रदेश ।	—वही—
5.	—वही—	—वही—	श्री रमा गोविन्द शुक्ल, ग्राम मड़ा रघुवर, पोस्ट बिहारीली, जिला रीवा, मध्य प्रदेश ।	—वही—

[सं. 76/म.प्र./2001(4)]

आदेश से,

एन.एन. फारुकी, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th August, 2001.

O.N. 105.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the table below at the General Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly, 1998 as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) Against his name has failed to lodge account of his election expenses within the specified time required by the Representation of the People Act, 1951 and the rule made thereunder as shown in column (5) of the said table;

And, whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the person specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :

TABLE

S. No.	Particular of election	S.No. & Name of assembly constituency	Name & address of the contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly, 1998	68—Mangawan	Shri Sampati, Dhawaiya, (Mangawan Area), District Rewa, Madhya Pradesh	Failure to lodge any account of election expenses
2.	-do-	71—Deotalab (SC)	Shri Jayakaran Nirat, Village & Post Office Tamra Desh, Tehsil Gurh, District Rewa, Madhya Pradesh.	-do-
3.	-do-	72—Mauganj	Shri Ram Pratap Vishwakarma, Village & Post Office Naunkala, District Rewa, Madhya Pradesh	-do-
4.	-do-	-do-	Shri Keshri Prasad Patel, Village Banna Mahatman Post Office Panti, District Rewa, Madhya Pradesh.	-do-
5.	-do-	-do-	Shri Rama Govind Shukla, Village Mara Raghuwar, Post Office Bijhauli, District Rewa, Madhya Pradesh.	-do-

[No.76/MP/2001(4)]

By order,

L. H. FARUQI, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2001

आ.अ. 106.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राजस्थान विधान सभा/लोक सभा के साधारण निर्वाचन और उप निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा-वर्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे ;

और उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सभ्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण और न ही स्पष्टीकरण दिया है अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत अन्यायेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष के कालावधि लिए एतद्वारा निरहित घोषित करता है ।

सारणी

क्र.सं. निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन-क्षेत्र की क्र.सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरहता का कारण
1	2	3	4
1. विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 1998	110-पीपल्वा (अ.जा.)	पेन्टर भवानी शंकर, बार्ड नं. 18, रेगरान मंदिर के पास भांगरोल, जिला बारां, राजस्थान ।	लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
2. —वही—	27-नवलगढ़	सुभाष, ग्राम व पोस्ट सोटबीरा, राजस्थान ।	—वही—
3. लोक सभा का साधारण निर्वाचन, 1999	13-टोंक	राजीव डांगी, 53 शिवाजी नगर, सिविल लाइन्स, जयपुर राजस्थान ।	लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे ।
4. विधान सभा का उप निर्वाचन, 2000	12-लूणकरणसर	जगदीश डूबी, ग्राम पोस्ट रामसर तहसील बीकानेर, राजस्थान ।	लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
5. —वही—	—वही—	मालचन्ध, सदर बाजार नोपासर, तहसील बीकानेर, राजस्थान ।	—वही—

[फा. सं. 76/राज./2001 (प.अनु. I)]

आदेश से,

सी. आर. काहुम, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th August, 2001

O.N. 106.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidate specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Lok Sabha/Legislative Assembly and bye-election in Rajasthan State specified in column 2 and held from the Constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder.

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or, after considering the representation made by them, if any the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below, to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

TABLE

Sl. No.	Particular of election	No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of the Candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to Legislative Assembly, 1998	110—Pipalda (SC)	Panter Bhawani Shanker, Ward No. 18, Near Raigar Temple Mangrol, Distt. Baran, Rajasthan.	Account not lodged
2.	-do-	27—Nawalgarh	Subash, Village and Post Sotwara, Rajasthan.	-do-
3.	General Election to Lok Sabha, 1999.	13—Tonk	Rajiv Dangi, 53, Shivaji Nagar, Civil Lines, Jaipur Rajasthan.	Account not lodged in the manner required by law.
4.	Bye-election to Legislative Assembly, 2000	12—Lunkaransar	Jagdish Dudi, Village and Post Ramsar, Tehsil Bikaner, Rajasthan.	Account not Lodged
5.	-do-	-do-	Mal Chand, Sadar Bazar, Napasar, Tehsil Bikaner, Rajasthan.	-do-

[F. No. 76/RJ/2001(W.S.-I.)]

By Order,

C. R. BRAHMAM, Secy.